



Mansi nagpal

24 Apr 1999

05:22 PM

Delhi

Model: Web-MyKundli

Order No: 121924101

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 24/04/1999
दिन _____: शनिवार
जन्म समय _____: 17:22:00 घंटे
इष्ट _____: 28:56:11 घटी
स्थान _____: Delhi
देश _____: India

अक्षांश _____: 28:39:00 उत्तर
रेखांश _____: 77:13:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:21:08 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 17:00:52 घंटे
वेलान्तर _____: 00:01:45 घंटे
साम्पातिक काल _____: 07:09:09 घंटे
सूर्योदय _____: 05:47:31 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:51:44 घंटे
दिनमान _____: 13:04:13 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: ग्रीष्म
सूर्य के अंश _____: 10:01:17 मेष
लग्न के अंश _____: 21:21:34 कन्या

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: कन्या - बुध
राशि-स्वामी _____: सिंह - सूर्य
नक्षत्र-चरण _____: मघा - 1
नक्षत्र स्वामी _____: केतु
योग _____: गण्ड
करण _____: तैतिल
गण _____: राक्षस
योनि _____: मूषक
नाड़ी _____: अन्त्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: वनचर
वर्ग _____: मूषक
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: मा-माणिक
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: लौह - रजत
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: वृष

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

| कैलेंडर | वर्ष | मास | तिथि/प्रविष्टे |
|------------|---------------|---------|----------------|
| राष्ट्रीय | शक : 1921 | वैशाख | 4 |
| पंजाबी | संवत : 2056 | वैशाख | 11 |
| बंगाली | सन् : 1406 | वैशाख | 10 |
| तमिल | संवत : 2056 | चिथिराई | 11 |
| केरल | कोल्लम : 1174 | मेदम | 11 |
| नेपाली | संवत : 2056 | वैशाख | 11 |
| चैत्रादि | संवत : 2056 | वैशाख | शुक्ल 9 |
| कार्तिकादि | संवत : 2056 | वैशाख | शुक्ल 9 |

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 9
तिथि समाप्ति काल _____ : 11:56:29
जन्म तिथि _____ : 10
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : आश्लेषा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 16:01:52 घंटे
जन्म योग _____ : मघा
सूर्योदय कालीन योग _____ : गण्ड
योग समाप्ति काल _____ : 21:52:42 घंटे
जन्म योग _____ : गण्ड
सूर्योदय कालीन करण _____ : कौलव
करण समाप्ति काल _____ : 11:56:29 घंटे
जन्म करण _____ : तैतिल
भयात _____ : 03:20:20
भभोग _____ : 62:49:18
भोग्य दशा काल _____ : केतु 6 वर्ष 7 मा 14 दि

घात चक्र


मास _____ : ज्येष्ठ
तिथि _____ : 3-8-13
दिन _____ : शनिवार
नक्षत्र _____ : मूल
योग _____ : धृति
करण _____ : बव
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मार्जार
लग्न _____ : मीन
सूर्य _____ : धनु
चन्द्र _____ : मकर
मंगल _____ : मकर
बुध _____ : तुला
गुरु _____ : कुम्भ
शुक्र _____ : मीन
शनि _____ : वृश्चिक
राहु _____ : मेष

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

| | | | |
|----------|---------|----|----|
| गु बु | श सू | शु | |
| | | | रा |
| के | | | चं |
| | | मं | ल |

लग्न कुण्डली

| | | |
|----|---------|----------|
| शु | श सू | गु बु |
| रा | | के |
| चं | मं | ल |

विंशोत्तरी
केतु 6वर्ष 7मा 14दि
केतु

24/04/1999

09/12/2118

| | |
|--------|------------|
| केतु | 08/12/2005 |
| शुक्र | 08/12/2025 |
| सूर्य | 08/12/2031 |
| चन्द्र | 08/12/2041 |
| मंगल | 07/12/2048 |
| राहु | 08/12/2066 |
| गुरु | 08/12/2082 |
| शनि | 09/12/2101 |
| बुध | 09/12/2118 |

योगिनी
भद्रिका 4वर्ष 8मा 23दि
पिंगला

16/01/2026

16/01/2028

| | |
|---------|------------|
| पिंगला | 25/02/2026 |
| धान्या | 27/04/2026 |
| भामरी | 18/07/2026 |
| भद्रिका | 27/10/2026 |
| उल्का | 26/02/2027 |
| सिद्धा | 18/07/2027 |
| संकटा | 27/12/2027 |
| मंगला | 16/01/2028 |

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

| भाव | भाव संधि | भाव मध्य |
|-----|------------------|------------------|
| 1 | कन्या 06:28:53 | कन्या 21:21:34 |
| 2 | तुला 06:28:53 | तुला 21:36:11 |
| 3 | वृश्चिक 06:43:30 | वृश्चिक 21:50:48 |
| 4 | धनु 06:58:07 | धनु 22:05:25 |
| 5 | मकर 06:58:07 | मकर 21:50:48 |
| 6 | कुम्भ 06:43:30 | कुम्भ 21:36:11 |
| 7 | मीन 06:28:53 | मीन 21:21:34 |
| 8 | मेष 06:28:53 | मेष 21:36:11 |
| 9 | वृष 06:43:30 | वृष 21:50:48 |
| 10 | मिथुन 06:58:07 | मिथुन 22:05:25 |
| 11 | कर्क 06:58:07 | कर्क 21:50:48 |
| 12 | सिंह 06:43:30 | सिंह 21:36:11 |


निरयण भाव चलित

| भाव | राशि | अंश |
|-----|---------|----------|
| 1 | कन्या | 21:21:34 |
| 2 | तुला | 19:54:13 |
| 3 | वृश्चिक | 20:24:56 |
| 4 | धनु | 22:05:25 |
| 5 | मकर | 23:54:23 |
| 6 | कुम्भ | 24:12:21 |
| 7 | मीन | 21:21:34 |
| 8 | मेष | 19:54:13 |
| 9 | वृष | 20:24:56 |
| 10 | मिथुन | 22:05:25 |
| 11 | कर्क | 23:54:23 |
| 12 | सिंह | 24:12:21 |


तारा चक्र

| जन्म | सम्पत | विपत | क्षेम | प्रत्यारि | साधक | वध | मित्र | अतिमित्र |
|---------|-------------|------------|--------|-----------|---------|------------|-----------|----------|
| मघा | पू०फाल्गुनी | उ०फाल्गुनी | हस्त | चित्रा | स्वाति | विशाखा | अनुराधा | ज्येष्ठा |
| मूल | पूर्वाषाढा | उत्तराषाढा | श्रवण | धनिष्ठा | शतभिषा | पू०भाद्रपद | उ०भाद्रपद | रेवती |
| अश्विनी | भरणी | कृतिका | रोहिणी | मृगशिरा | आर्द्रा | पुनर्वसु | पुष्य | आश्लेषा |

चलित कुंडली



भाव कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 6 वर्ष 7 मास 14 दिन

| केतु 7 वर्ष | शुक्र 20 वर्ष | सूर्य 6 वर्ष | चंद्र 10 वर्ष | मंगल 7 वर्ष |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 24/04/1999 | 08/12/2005 | 08/12/2025 | 08/12/2031 | 08/12/2041 |
| 08/12/2005 | 08/12/2025 | 08/12/2031 | 08/12/2041 | 07/12/2048 |
| केतु 06/05/1999 | शुक्र 08/04/2009 | सूर्य 27/03/2026 | चंद्र 08/10/2032 | मंगल 06/05/2042 |
| शुक्र 05/07/2000 | सूर्य 08/04/2010 | चंद्र 26/09/2026 | मंगल 09/05/2033 | राहु 24/05/2043 |
| सूर्य 10/11/2000 | चंद्र 08/12/2011 | मंगल 01/02/2027 | राहु 07/11/2034 | गुरु 29/04/2044 |
| चंद्र 11/06/2001 | मंगल 06/02/2013 | राहु 26/12/2027 | गुरु 08/03/2036 | शनि 08/06/2045 |
| मंगल 07/11/2001 | राहु 07/02/2016 | गुरु 14/10/2028 | शनि 08/10/2037 | बुध 05/06/2046 |
| राहु 26/11/2002 | गुरु 08/10/2018 | शनि 26/09/2029 | बुध 09/03/2039 | केतु 01/11/2046 |
| गुरु 02/11/2003 | शनि 08/12/2021 | बुध 02/08/2030 | केतु 08/10/2039 | शुक्र 02/01/2048 |
| शनि 10/12/2004 | बुध 08/10/2024 | केतु 08/12/2030 | शुक्र 08/06/2041 | सूर्य 08/05/2048 |
| बुध 08/12/2005 | केतु 08/12/2025 | शुक्र 08/12/2031 | सूर्य 08/12/2041 | चंद्र 07/12/2048 |

| राहु 18 वर्ष | गुरु 16 वर्ष | शनि 19 वर्ष | बुध 17 वर्ष | केतु 7 वर्ष |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 07/12/2048 | 08/12/2066 | 08/12/2082 | 09/12/2101 | 09/12/2118 |
| 08/12/2066 | 08/12/2082 | 09/12/2101 | 09/12/2118 | 00/00/0000 |
| राहु 21/08/2051 | गुरु 25/01/2069 | शनि 11/12/2085 | बुध 06/05/2104 | केतु 25/04/2119 |
| गुरु 13/01/2054 | शनि 08/08/2071 | बुध 20/08/2088 | केतु 04/05/2105 | 00/00/0000 |
| शनि 19/11/2056 | बुध 13/11/2073 | केतु 29/09/2089 | शुक्र 03/03/2108 | 00/00/0000 |
| बुध 09/06/2059 | केतु 20/10/2074 | शुक्र 28/11/2092 | सूर्य 08/01/2109 | 00/00/0000 |
| केतु 26/06/2060 | शुक्र 20/06/2077 | सूर्य 10/11/2093 | चंद्र 09/06/2110 | 00/00/0000 |
| शुक्र 27/06/2063 | सूर्य 08/04/2078 | चंद्र 12/06/2095 | मंगल 06/06/2111 | 00/00/0000 |
| सूर्य 21/05/2064 | चंद्र 08/08/2079 | मंगल 20/07/2096 | राहु 24/12/2113 | 00/00/0000 |
| चंद्र 19/11/2065 | मंगल 14/07/2080 | राहु 27/05/2099 | गुरु 31/03/2116 | 00/00/0000 |
| मंगल 08/12/2066 | राहु 08/12/2082 | गुरु 09/12/2101 | शनि 09/12/2118 | 00/00/0000 |

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 6 वर्ष 7 मा 16 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| सूर्य - चंद्र 27/03/2026 26/09/2026 | सूर्य - मंगल 26/09/2026 01/02/2027 | सूर्य - राहु 01/02/2027 26/12/2027 | सूर्य - गुरु 26/12/2027 14/10/2028 | सूर्य - शनि 14/10/2028 26/09/2029 |
| चंद्र 11/04/2026 मंगल 22/04/2026 राहु 20/05/2026 गुरु 13/06/2026 शनि 12/07/2026 बुध 07/08/2026 केतु 17/08/2026 शुक्र 17/09/2026 सूर्य 26/09/2026 | मंगल 03/10/2026 राहु 22/10/2026 गुरु 09/11/2026 शनि 29/11/2026 बुध 17/12/2026 केतु 24/12/2026 शुक्र 15/01/2027 सूर्य 21/01/2027 चंद्र 01/02/2027 | राहु 22/03/2027 गुरु 05/05/2027 शनि 26/06/2027 बुध 11/08/2027 केतु 31/08/2027 शुक्र 24/10/2027 सूर्य 10/11/2027 चंद्र 07/12/2027 मंगल 26/12/2027 | गुरु 03/02/2028 शनि 21/03/2028 बुध 01/05/2028 केतु 18/05/2028 शुक्र 06/07/2028 सूर्य 20/07/2028 चंद्र 14/08/2028 मंगल 31/08/2028 राहु 14/10/2028 | शनि 08/12/2028 बुध 26/01/2029 केतु 15/02/2029 शुक्र 14/04/2029 सूर्य 01/05/2029 चंद्र 30/05/2029 मंगल 19/06/2029 राहु 10/08/2029 गुरु 26/09/2029 |
| सूर्य - बुध 26/09/2029 02/08/2030 | सूर्य - केतु 02/08/2030 08/12/2030 | सूर्य - शुक्र 08/12/2030 08/12/2031 | चंद्र - चंद्र 08/12/2031 08/10/2032 | चंद्र - मंगल 08/10/2032 09/05/2033 |
| बुध 09/11/2029 केतु 27/11/2029 शुक्र 17/01/2030 सूर्य 02/02/2030 चंद्र 28/02/2030 मंगल 18/03/2030 राहु 04/05/2030 गुरु 14/06/2030 शनि 02/08/2030 | केतु 10/08/2030 शुक्र 31/08/2030 सूर्य 06/09/2030 चंद्र 17/09/2030 मंगल 24/09/2030 राहु 14/10/2030 गुरु 31/10/2030 शनि 20/11/2030 बुध 08/12/2030 | शुक्र 07/02/2031 सूर्य 25/02/2031 चंद्र 27/03/2031 मंगल 18/04/2031 राहु 12/06/2031 गुरु 30/07/2031 शनि 26/09/2031 बुध 17/11/2031 केतु 08/12/2031 | चंद्र 03/01/2032 मंगल 20/01/2032 राहु 06/03/2032 गुरु 16/04/2032 शनि 03/06/2032 बुध 16/07/2032 केतु 03/08/2032 शुक्र 22/09/2032 सूर्य 08/10/2032 | मंगल 20/10/2032 राहु 21/11/2032 गुरु 19/12/2032 शनि 22/01/2033 बुध 21/02/2033 केतु 06/03/2033 शुक्र 10/04/2033 सूर्य 21/04/2033 चंद्र 09/05/2033 |
| चंद्र - राहु 09/05/2033 07/11/2034 | चंद्र - गुरु 07/11/2034 08/03/2036 | चंद्र - शनि 08/03/2036 08/10/2037 | चंद्र - बुध 08/10/2037 09/03/2039 | चंद्र - केतु 09/03/2039 08/10/2039 |
| राहु 30/07/2033 गुरु 11/10/2033 शनि 06/01/2034 बुध 24/03/2034 केतु 25/04/2034 शुक्र 25/07/2034 सूर्य 22/08/2034 चंद्र 07/10/2034 मंगल 07/11/2034 | गुरु 11/01/2035 शनि 30/03/2035 बुध 07/06/2035 केतु 05/07/2035 शुक्र 24/09/2035 सूर्य 18/10/2035 चंद्र 28/11/2035 मंगल 26/12/2035 राहु 08/03/2036 | शनि 08/06/2036 बुध 29/08/2036 केतु 02/10/2036 शुक्र 06/01/2037 सूर्य 04/02/2037 चंद्र 24/03/2037 मंगल 27/04/2037 राहु 23/07/2037 गुरु 08/10/2037 | बुध 20/12/2037 केतु 19/01/2038 शुक्र 16/04/2038 सूर्य 11/05/2038 चंद्र 24/06/2038 मंगल 24/07/2038 राहु 09/10/2038 गुरु 17/12/2038 शनि 09/03/2039 | केतु 22/03/2039 शुक्र 26/04/2039 सूर्य 07/05/2039 चंद्र 25/05/2039 मंगल 06/06/2039 राहु 08/07/2039 गुरु 05/08/2039 शनि 08/09/2039 बुध 08/10/2039 |

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


| | |
|--------------|---------------------|
| मूलांक | 6 |
| भाग्यांक | 2 |
| मित्र अंक | 3, 4, 6, 9, 2 |
| शत्रु अंक | 1, 7, 8 |
| शुभ वर्ष | 24,33,42,51,60 |
| शुभ दिन | बुध, शुक्र |
| शुभ ग्रह | बुध, शुक्र |
| मित्र राशि | वृश्चिक, मेष |
| मित्र लग्न | धनु, वृष, कर्क |
| अनुकूल देवता | सूर्य |
| शुभ रत्न | पन्ना |
| शुभ उपरत्न | संगपन्ना, मरगज |
| भाग्य रत्न | हीरा |
| शुभ धातु | कांसा |
| शुभ रंग | हरित |
| शुभ दिशा | उत्तर |
| शुभ समय | सूर्योदय के बाद |
| दान पदार्थ | हाथी दाँत, कपूर, फल |
| दान अन्न | मूँग |
| दान द्रव्य | घी |

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

| रत्न | ग्रह | शुभता | क्षेत्र |
|----------|-------|-------|--------------------------------------|
| हीरा | शुक्र | 100% | भाग्योदय, धन |
| पन्ना | बुध | 94% | दम्पति, व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य |
| पुखराज | गुरु | 53% | दम्पति, सुख |
| लहसुनिया | केतु | 41% | सन्तति कष्ट, दुर्घटना |
| मोती | चंद्र | 38% | व्यय, हानि |
| गोमेद | राहु | 31% | हानि, व्यय |
| नीलम | शनि | 22% | दुर्घटना, सन्तति कष्ट, शत्रु व रोग |
| माणिक्य | सूर्य | 0% | दुर्घटना, व्यय |
| मूंगा | मंगल | 0% | धन हानि, दुर्घटना, पराक्रम हानि |



दशानुसार रत्न विचार

| दशा | समाप्ति | माणिक्य | मोती | मूंगा | पन्ना | पुखराज | हीरा | नीलम | गोमेद | लहसुनिया |
|-------|------------|---------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|----------|
| केतु | 08/12/2005 | 0% | 12% | 6% | 94% | 53% | 100% | 0% | 6% | 58% |
| शुक्र | 08/12/2025 | 0% | 12% | 0% | 100% | 53% | 100% | 34% | 44% | 52% |
| सूर्य | 08/12/2031 | 0% | 50% | 6% | 94% | 59% | 92% | 0% | 6% | 16% |
| चंद्र | 08/12/2041 | 0% | 56% | 0% | 100% | 53% | 100% | 22% | 6% | 16% |
| मंगल | 07/12/2048 | 0% | 50% | 19% | 81% | 59% | 100% | 22% | 6% | 52% |
| राहु | 08/12/2066 | 0% | 12% | 0% | 94% | 53% | 100% | 34% | 53% | 16% |
| गुरु | 08/12/2082 | 0% | 50% | 6% | 81% | 65% | 92% | 22% | 31% | 41% |
| शनि | 09/12/2101 | 0% | 12% | 0% | 100% | 53% | 100% | 47% | 44% | 16% |
| बुध | 09/12/2118 | 0% | 12% | 0% | 100% | 53% | 100% | 22% | 31% | 41% |

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

| | |
|------------------------|---|
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया | 06/09/2004-13/01/2005 26/05/2005-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007 |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | 01/11/2006-10/01/2007 16/07/2007-10/09/2009 ----- |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया | 10/09/2009-15/11/2011 16/05/2012-04/08/2012 ----- |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया | 02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017 ----- |
| अष्टम स्थानस्थ ढैया | 29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028 ----- |

द्वितीय चक्र:

| | |
|------------------------|---|
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया | 13/07/2034-27/08/2036 ----- |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | 27/08/2036-22/10/2038 05/04/2039-13/07/2039 ----- |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया | 22/10/2038-05/04/2039 13/07/2039-28/01/2041 06/02/2041-26/09/2041 |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया | 11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046 ----- |
| अष्टम स्थानस्थ ढैया | 14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057 ----- |

तृतीय चक्र:

| | |
|------------------------|---|
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया | 24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066 |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | 13/10/2065-03/02/2066 03/07/2066-30/08/2068 ----- |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया | 30/08/2068-04/11/2070 ----- |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया | 05/02/2073-31/03/2073 23/10/2073-16/01/2076 11/07/2076-11/10/2076 |
| अष्टम स्थानस्थ ढैया | 20/03/2084-21/05/2086 21/05/2086-08/02/2087 ----- |

शनि का ढैया फल

| ढैया के प्रकार | फल | क्षेत्र |
|------------------------|------|--------------|
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया | सम | अल्प बचत |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | अशुभ | व्यय |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया | सम | स्वास्थ्य |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया | सम | पराक्रम हानि |
| अष्टम स्थानस्थ ढैया | शुभ | दम्पति |

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति द्वितीय भाव में है। कुंडली में यह भाव मुख्य रूप से वाणी तथा कुटुम्ब का प्रतिनिधित्व करता है। अतः मंगल के प्रभाव से आपकी पारिवारिक सुख शान्ति तथा समृद्धि मध्यम रहेगी तथा यदा कदा पारिवारिक जनों में मतभेद का वातावरण बन सकता है। इसी कारण दक्षिण भारत में इसे कुज दोष भी माना जाता है। आपकी वाणी में भी ओजस्विता का भाव रहेगा तथा लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। धनार्जन के लिए यह स्थिति उत्तम रहेगी तथा स्वपरिश्रम एवं पराकम से आप इच्छित धन एवं सुख संसाधनों को अर्जित करके पारिवारिक जनों को सन्तुष्ट करने में समर्थ रहेंगे।

कुंडली में द्वितीय भावस्थ मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि से पुत्र संतति से आप युक्त रहेंगे तथा जीवन में उनसे आपको पूर्ण सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा लेकिन संतति प्राप्ति में किंचित विलम्ब हो सकता है साथ ही उच्च शिक्षा अर्जित करने में भी आप सफल रहेंगे। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहेगा। यदा कदा पित या गर्मी से कोई परेशानी हो सकती है लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य यथा समय सिद्ध होंगे। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से आप अपने कार्यों एवं पराकम से भाग्य का निर्माण करेंगे। जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेंगे साथ ही आप भाग्य वादी न होकर कर्म करने में विश्वास रखेंगे।

इस प्रकार आप द्वितीय भावस्थ मंगल के प्रभाव से पारिवारिक सुख शान्ति तथा समृद्धि को बनाएं रखेंगे तथा पारिवारिक जनों का उचित रूप से पालन करेंगे साथ ही वे भी आपको यथोचित सुख एवं सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको किसी गैर मांगलिक कन्या से विवाह करना चाहिए। जिससे आप प्रसन्नता पूर्वक जीवन में सुखों का उपभोग करेंगे तथा एक दूसरे को सहयोग प्रदान करके

मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त करेंगे।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- पंचम भाव में केतु स्थित है एवं शनि से दृष्ट है।
- पंचम भाव का स्वामी नीच का होकर अष्टम भाव में स्थित है।
- पंचम भाव का स्वामी नीचस्थ है और उस पर शनि का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में शनि और केतु के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में शनि पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा दलित पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ भगवान रुद्र की पूजा करें। पीपल को जल चढ़ायें व पूजा करें। शम्मी की समिधा से हवन करें। बकरी व शनि प्रीतकारी वस्तुओं का दान करें। गरीब या जरूरतमंदों की सहायता के रूप में दान दें तथा कौए को खाने का पहला ग्रास खिलायें।

आपकी कुण्डली में केतु पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। रंगबिरंगी चिड़ियों को दाना डालें। नारियल का दान करें या जल प्रवाह करें।

ब्राह्मणों की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करें।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह सूर्यबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

अष्टमभाव में सूर्य हो तो जातक धैर्यहीन, निबुद्धि, सुखी, धनी, क्रोधी, चिन्तायुक्त एवं पित्तरोगी होता है।

मेष राशि में रवि हो तो जातक उदार, गम्भीर, शूरवीर, आत्मबली स्वाभिमानी, प्रतापी, चतुर, पित्तविकारी, युद्धप्रिय, साहसी एवं महत्वाकांक्षी होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति अष्टम भाव में है अतः आपके पिता का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक रूप से वे कष्टानुभूति करेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह भाव रहेगा तथा जीवन में वे धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे एवं आपको समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे यदा कदा आप उनसे विशेष धन या सम्पत्ति भी अर्जित कर सकेंगे। साथ ही यात्रा एवं व्यापार संबंधी कार्यों में भी आपको सहयोग एवं निर्देश प्रदान करेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रहेगा एवं समय समय पर उनकी आज्ञा का आप पालन करते रहेंगे। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा आपसी मतभेदों से इसमें कटुता या तनाव का वातावरण भी होगा परन्तु यह अल्प समय के लिए होगा। इसके साथ ही जीवन में आप सर्वप्रकार से पिता को सहयोग देंगे एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने देंगे।

चन्द्र

बारहवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक मृदुभाषी, चिन्ताशील, एकात्प्रिय, क्रोधी, कफरोगी, चंचल, नेत्ररोगी एवं अधिक व्यय करने वाला होता है।

सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो जातक दृढ़देही, दाँत तथा पेट का रोगी, मातृभक्त, अल्पसन्ततिवान्, गम्भीर, दानी, साहसी, शान दिखाने वाला अभिमानी, महत्वाकांक्षी एवं पुराने विचारों वाला होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति द्वादश भाव में है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य सामान्य अच्छा रहेगा तथा यदा कदा कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपके प्रति उनके मन में वात्सल्य का भाव रहेगा तथा जीवन में आपको प्रायः यथाशक्ति अपना सहयोग प्रदान करती रहेंगी। आप उनसे अच्छे तथा पुण्य के कार्यों के प्रति प्रवृत्त होंगे तथा समयानुसार दानादि को भी उन्हीं के कथनानुसार सम्पन्न करेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति आदर का भाव रहेगा एवं उनकी आज्ञा का पालन आप कुछ अवसरों को छोड़कर करते रहेंगे। आपके परस्पर संबंध विशेष मधुर नहीं होंगे क्योंकि आप में काफी मतभेद रहेंगे तथापि सांसारिक संबंधों में कोई तनाव नहीं रहेगा एवं सामंजस्य पूर्वक आप के परस्पर व्यवहार चलते रहेंगे। साथ ही उन्हें कष्ट के समय आप अपनी ओर से

पूर्ण सहयोग तथा सहायता अवश्य प्रदान करेंगे।

मंगल

द्वितीय भाव में मंगल हो तो जातक कटुभाषी, नेत्रकर्ण रोगी, कटुतिक्त रसप्रिय, धर्मप्रेमी, चोर से भक्ति, कुटुम्ब क्लेश वाला, पशुपालक, निर्बुद्धि एवं निर्धन होता है।

तुला राशि में मंगल हो तो जातक प्रवासी, वक्ता, कामी, परधनहारी, उच्चाकांक्षी, लड़ाकू, कृपालु एवं परस्त्रियों की ओर झुकाव होता है।

आप के जन्म काल में मंगल द्वितीय भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा वे शारीरिक रूप से व्याकुलता की अनुभूति भी करते रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह भाव विद्यमान रहेगा। धनार्जन एवं विद्यार्जन संबंधी कार्यों में वे आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही जीवन में अन्य महत्वपूर्ण एवं शुभ कार्यों में भी आपको उनका पूर्ण सहयोग एवं सद्भाव प्राप्त होगा।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह की भावना रहेगी। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा उनमें आपसी मतभेदों के कारण अनिश्चित काल के लिए कटुता या तनाव का वातावरण होगा। जीवन में आप हमेशा भाई बहिनों का सुख दुःख में ध्यान रखेंगे तथा अपनी ओर से हमेशा उन्हें पूर्ण आर्थिक एवं अन्य रूप में सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

बुध

सातवें भाव में बुध हो तो जातक सुन्दर, विद्वान्, कुलीन, व्यवसायकुशल, धनी, लेखक, सम्पादक, उदार, सुखी, अल्पवीर्य, दीर्घायु एवं धार्मिक होता है।

मीन राशि में बुध हो तो जातक स्वाभिमानी, सदाचारी, सहनशील, भाग्यवान्, प्रवास में सुखी, मिष्टभाषी, कार्यदक्ष, धनसंही, नकल करने का स्वभाव, चिन्तित एवं छोटे दिल का होता है।

गुरु

सप्तम भाव में गुरु हो तो जातक सुन्दर, धैर्यवान्, भाग्यवान्, प्रवासी, सन्तोषी, स्त्रीप्रेमी, परस्त्रीरत, ज्योतिषी, नम्र, विद्वान् वक्ता एवं प्रधान होता है।

मीन राशि में गुरु हो तो जातक लेखक, शास्त्रज्ञ, गर्वहीन, राजमान्य, शान्त, व्यवहार कुशल, दयालु, साहित्य प्रेमी, विरासत में धन सम्पत्ति प्राप्त करने वाला, साहसी एवं उच्चपद पर आसीन होता है।

शुक्र

नवम भाव में शुक्र हो तो जातक धर्मात्मा, राजप्रिय, पवित्रतीर्थ यात्राओं का कर्ता, दयालु, प्रेमी, गृहसुखी, गुणी, चतुर एवं आस्तिक होता है।

वृष राशि में शुक्र हो तो जातक सुन्दर, ऐश्वर्यवान्, दानी, सदाचारी, सात्त्विक, परोपकारी, अनेक शास्त्रज्ञ, दृढ़, स्वतन्त्रकामुक, शौकीन तबीयत, संगीत-नृत्य तथा अन्य कलाओं में रुचि एवं आलसी होता है।

शनि

अष्टम भाव में शनि हो तो जातक विद्वान् स्थूलशरीर, उदार प्रकृति, कपटी, गुप्तरोगी, वाचाल, डरपोक, कुष्ठरोगी एवं धूर्त होता है।

मेष राशि में शनि हो तो जातक आत्मबलहीन, मूर्ख, आवारा, कूर जालफरेव करने वाला, व्यसनी, निर्धन, दुराचारी, कपटी लम्पट एवं कृतघ्न होता है।

राहु

ग्यारहवें भाव में राहु हो तो जातक परिश्रमी, अल्पसन्तान, विदेशियों से धनलाभ, दीर्घायु, मन्दमति, लाभहीन, अरिष्टनाशक, व्यवसाययुक्त, कदाचित् लाभदायक एवं कार्य सफल करने वाला होता है।

कर्क राशि में राहु हो तो जातक चतुर, उदार, रोगी, अनेकों शत्रुओं वाला, धोखेबाज, धनहीन एवं पराजि होता है।

केतु

पंचम भाव में केतु हो तो जातक वातरोगी, कुचाली, कुबुद्धि, सन्तान को नष्ट करता है, योगी, कुशाग्रबुद्धि एवं क्रोधी होता है।

मकर राशि में केतु हो तो जातक परिश्रमशील, पराकमी जन्म स्थान छोड़कर जाने वाला, प्रसिद्ध एवं तेजस्वी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- सूर्य
(08/12/2025 - 08/12/2031)

सूर्य की महादशा 08/12/2025 को आरम्भ होगी और 6 वर्ष की होकर 08/12/2031 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में सूर्य अष्टम भाव में अवस्थित है। सूर्य स्वास्थ्य, पिता, राजकीय कृपा, साहस तथा क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है जबकि अष्टम भाव अप्रत्याशित लाभ, छुपी प्रतिभा, आध्यात्मिक लक्ष्य तथा लाभ का सूचक है। अतः इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, साझेदारों से लाभ तथा पैतृक सम्पत्ति की प्राप्ति हागी।

स्वास्थ्य :

आपकी जीवन शक्ति में वृद्धि होगी तथा स्वास्थ्य उत्तम होगा। आपको आपके मार्ग में आनेवाली सभी समस्याओं का सामना करने की शक्ति तथा उत्साह प्राप्त होगा। आप में प्रतिरोध की क्षमता प्रबल है। कभी-कभी आप सरदर्द, लू, प्रदाह आदि से पीड़ित हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं से बचाव के लिये आपको सन्तुलित आहार लेना चाहिए। सभी अतिशयताओं का परित्याग करें।

अर्थ :

आप भाग्यशाली हैं ओर आपके साधन पर्याप्त हैं। फिजूल खर्ची से बचें अन्यथा आपका बैंक बैलेंस प्रभावित हो सकता है। आपको पैतृक अथवा अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है। सट्टेबाजी और निवेश का परित्याग करें। आपको सेवा-अवकाश से लाभ, बोनस तथा ग्रेच्युइटी की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक रहेगी।

व्यवसाय :

आपको सफलता, यश ख्याति, शक्ति तथा अधिकार की प्राप्ति होगी। सूर्य की अष्टम भाव में स्थिति के कारण कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं, किन्तु वे लाभदायक सिद्ध होंगे। आप किसी उच्च सरकारी पद पर आसीन होंगे क्योंकि आपमें प्रशासकीय क्षमता विद्यमान है। आप संस्थाओं, निगमों और अन्य संगठनों के प्रबन्धक पद के लिये अति उपयुक्त हैं। आप सैन्य अथवा राजनीतिक सेवा, प्रशासकीय कार्य, तकनीकी-वैज्ञानिक सेवाओं का चयन अपनी जीवन वृत्ति के लिये कर सकते हैं। पेशेवर खेल भी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। सेवारत व्यक्तियों को सफलता, आमदनी, यश तथा ख्याति की प्राप्ति होगी। व्यवसायियों को सभी कार्यों में सफलता तथा लाभ की प्राप्ति होगी जबकि व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा।

परिवार :

बच्चों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आपको अपने विकल्पों के प्रति हठधर्मी नहीं होना चाहिए और अपने विचार दूसरों पर आरोपित नहीं करने चाहिए। अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता है। आपके जीवन साथी को आर्थिक लाभ मिलेंगे और उनके साथ आपके सम्बन्ध मधुर रहेंगे। आप कैसा व्यवहार करें यह आप पर निर्भर करता है। आपकी माता को सट्टे तथा निवेश से लाभ होगा और बच्चों से सुख मिलेगा। आपके पिता

की आध्यात्मिक कार्यों में रुचि हो सकती है। आपके छोटे भाई-बहनों को उनके प्रतिद्वन्द्वियों पर विजय मिलेगी, और मातृ-पक्ष से लाभ मिलेगा जबकि बड़े भाई-बहनों को जीवन-वृत्ति में सफलता मिलेगी। आप स्वभाव से उदार तथा स्वामिभक्त हैं अतः आपके मित्रों की संख्या बड़ी होगी।

शिक्षा :

आप धर्म ग्रन्थों का अध्ययन कर सकते हैं। अध्यात्म में आपकी रुचि हो सकती है।



अंतर्दशा :- सूर्य - सूर्य
(08/12/2025 - 27/03/2026)

आपके लिए सूर्य की महादशा 08/12/2025 को प्रारंभ हो रही है। इस महादशा में पहली अंतर्दशा सूर्य की होगी जिसकी अवधि 3 मास 18 दिन होकर 27/03/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा का स्वामी सूर्य पिता, अधिकार, शक्ति, नाम, प्रसिद्धि, ऊर्जा और आत्मा का कारक है।

इस अंतर्दशा की अवधि में आपका स्वास्थ्य और ऊर्जा उत्तम रहेंगे। अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो लाभ प्राप्त करेंगे। अचानक धन मिल सकता है। बीमे की रकम, सेवानिवृत्ति निधि, विरासत आदि से धन मिल सकता है। अध्यात्म, तंत्र-मंत्र आदि में रुचि बढ़ सकती है।

संतान अपने कार्य, विशेषकर शोध में प्रगति करेगी। जीवनसाथी को लाभ मिल सकता है। आपको भागीदारी, संघ या अनुबंध आदि से लाभ हो सकता है। पिता के लिए समय प्रतिकूल हो सकता है। माता के धन में वृद्धि होगी। छोटे भाई-बहनों का भाग्य मध्यम हो सकता है परंतु बड़े भाई-बहन सफलता प्राप्त करेंगे।

स्वास्थ्य के लिए सामान्य सावधानियों का पालन करें। आंखों के रोग, ज्वर आदि कष्ट दे सकते हैं। अशुभ से बचने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें और रविवार के दिन व्रत करें।

अंतर्दशा :- सूर्य - चन्द्र
(27/03/2026 - 26/09/2026)

आपकी सूर्य की महादशा 08/12/2025 को प्रारंभ हुई थी। इसमें दूसरी अंतर्दशा चंद्रमा की होगी जिसकी अवधि 6 मास है और यह 26/09/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र मष्तिष्क, घर, माता और सौंदर्य का कारक है।

इस अवधि में आप किसी ऐसे काम को करना पसंद करेंगे जिसमें जनता की नज़रों से दूर रहकर कर्मठ और निस्वार्थ भाव से काम कर सकें। प्राच्यविद्या में आपकी रुचि होगी। दान-पुण्य आदि पर धन खर्च होगा। सेवारत जातकों को कार्यालय के कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारीगण खूब लाभ कमाएंगे। सलाहकारों के कार्य में मामूली परिवर्तन हो सकता है।

भाई-बहनों का भाग्य उत्तम रहेगा। उनके आपके साथ संबंध मधुर रहेंगे। जीवनसाथी को स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्या हो सकती है।

शोधकर्ताओं के लिए समय सौभाग्यशाली है। एकांत में किया गया कार्य शुभफलप्रदाता होगा। आपकी माता के लिए समय शुभ है। आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। संतान के कार्यों में प्रगति होगी। आपको नेत्र और हाथ-पैरों के मामूली रोग हो सकते हैं। शुभत्व की वृद्धि हेतु श्वेत वस्तुओं का दान करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - मंगल
(26/09/2026 - 01/02/2027)**

आपकी सूर्य की महादशा 08/12/2025 को प्रारंभ हो रही है। इसमें तृतीय अंतर्दशा मंगल की है जिसकी अवधि 4 मास 6 दिन है। यह अंतर्दशा 01/02/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, ऊर्जा और भाइयों का कारक है।

इस अवधि में आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति सुदृढ़ रहेगी। स्वभाव से दयालु होने के कारण पैसा अधिक खर्च करेंगे। अधिकांशतः आपकी आय स्वयं की कमाई से होगी। जीवनसाथी द्वारा भी लाभ संभव है। जमीन-जायदाद से भी लाभ हो सकता है। पड़ोसी कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। नयी जान-पहचान वालों से थोड़ा सावधान रहें।

माता के कार्य सुचारु रहेंगे। उन्हें छोटी-मोटी चोटों के विरुद्ध सावधान रहना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य से कुछ चिंता हो सकती है मगर उनकी प्रतिरोधक शक्ति प्रबल रहेगी। छोटे भाई-बहनों की निरर्थक यात्राएं हो सकती हैं, उनका स्थानांतरण हो सकता है। बड़े भाई-बहनों की कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी। विद्यार्थी प्रगति करेंगे। तकनीकी क्षेत्र विशेषतः फलप्रद रहेगा। कटुवचनों से बचें और गृहशांति को हानि न पहुंचाएं।

नेत्र और गले की व्याधियों के विरुद्ध सावधान रहें। शुभत्व में वृद्धि के लिए लाल दाल का दान करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - राहु
(01/02/2027 - 26/12/2027)**

आपके लिए सूर्य की महादशा 08/12/2025 को प्रारंभ हुई थी। इसमें चतुर्थ अंतर्दशा राहु की होगी। यह 01/02/2027 को प्रारंभ होकर 26/12/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक सुख, दादा और तीर्थयात्रा का कारक है।

इस अवधि में आपको आकांक्षाओं की पूर्ति में विभिन्न व्यक्तियों से सहायता प्राप्त होगी। विदेश के संपर्कों से लाभ होगा। आपको धन, सुख-सुविधाएं और आराम नसीब होंगे। शिशु का जन्म हो सकता है। उच्चाधिकारियों से सम्मान मिलेगा।

जीवनसाथी को धन मिलेगा। आपके पिता को सफलता प्राप्त करने के लिए कर्मठता से प्रयास करने होंगे। माता को स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भाई-बहन सौभाग्यशाली रहेंगे। उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होगी। उनका विवाह हो सकता है। आपकी संतान को प्रसिद्धि मिलेगी। संपर्क बढ़ाने के लिए समय उनके लिए उत्तम है।

अगर आप सेवारत हैं तो मातहत सहयोग करेंगे, सब कुछ ठीक ढंग से चलेगा। परामर्शदाताओं के जमा धन में वृद्धि होगी। व्यापारियों की व्यस्तता बढ़ेगी।

शरीर के निचले भागों और बायें कान की देखभाल करें। शुभत्व में वृद्धि के लिए नीले वस्त्र और सतनजे का दान करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - गुरु
(26/12/2027 - 14/10/2028)**

आपके लिए सूर्य की महादशा 08/12/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा 9 मास 18 दिन की रहेगी। यह 26/12/2027 को प्रारंभ होकर 14/10/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति धन, संतान और धर्म का कारक है।

इस अंतर्दशा में आप धनवान, सम्मानित और प्रसिद्ध होंगे। अनुबंधों से लाभ होगा। मुकदमें में विजय मिलेगी। विवाह संभव है। ससुराल से लाभ होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन-धान्य से युक्त रहेंगे। लघु यात्राएं हो सकती हैं। कला और साहित्य में रुचि हो सकती है। सब प्रकार से धन मिलेगा, पुरस्कृत होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी।

जीवनसाथी को समृद्धि मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; यात्राएं होंगी, सर्जनात्मक कार्यों में रुचि और सट्टेबाजी में लाभ संभावित हैं। उन्हें संतान से सुख मिलेगा। आपके पिता को धन की प्राप्ति होगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, निवेश से लाभ मिलेगा। माता की अचल संपत्ति में बढ़ोत्तरी होगी। भाई-बहनों का समय समृद्ध रहेगा। उन्हें सफलता प्राप्त होगी। आपकी संतान वाक्शक्ति में पटु होगी और शिक्षा में प्रगति करेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो धनार्जन उत्तम होगा। परामर्शदाता व्यस्त रहेंगे। व्यापारीवर्ग को यथास्थिति बनाये रखने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। पेट की शिकायतों, मधुमेह और मोटापे से बचाव करें। दुखों से बचने के लिए बृहस्पति के मंत्र का जाप करें।

ॐ बृं बृहस्पतये नमः

**अंतर्दशा :- सूर्य - शनि
(14/10/2028 - 26/09/2029)**

आपकी सूर्य की महादशा जारी है। इसमें छठी अंतर्दशा शनि की है जिसकी अवधि 11 मास 12 दिन है। आपके लिए यह 14/10/2028 को प्रारंभ होगी और 26/09/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, संन्यास और दार्शनिक स्वभाव का कारक है।

इस अवधि में आपको धन मिलेगा। पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आएगा। अचल संपत्ति पर्याप्त होगी। परिवार में शांति बनाये रखने के लिए प्रयास करना होना। निवेश से लाभ होगा। कार्य-व्यवसाय में बाधाएं आ सकती हैं। प्राच्यविद्या में रुचि रहेगी।

जीवनसाथी के धन में वृद्धि होगी। पिता को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं। माता को निवेश से लाभ हो सकता है। छोटे भाई-बहन बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। बड़े भाई-बहनों को लाभ होगा। आपकी संतान की नींव मजबूत होगी; उन्हें लक्ष्यप्राप्ति के लिए परिश्रम करना होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो सबका सहयोग प्राप्त होगा। परामर्शदाता धन कमाएंगे। व्यापारियों को गठबंधन और अनुबंधों से लाभ हो सकता है।

बीमार होने से सावधान रहें। शनि यदि जन्मपत्रिका में शुभ है तो हानि कम होगी। नेत्र के और वात से संबंधित रोग हो सकते हैं। अरिष्ट से बचने के लिए शनि की पूजा करें और तिल, काले वस्त्र, काले जूते, लोहे का दान करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - बुध
(26/09/2029 - 02/08/2030)**

आपकी सूर्य की महादशा 08/12/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा बुध की है जिसकी अवधि 10 मास 6 दिन रहेगी। यह 26/09/2029 को प्रारंभ होकर 02/08/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध बुद्धिमत्ता, शिक्षा, वाणी का कारक है।

इस अवधि में आपको व्यापार और सट्टेबाजी में लाभ होगा। साझेदारों से लाभ मिलेगा। मुकदमे में विजय होगी। आपका विवाह हो सकता है। जनमानस से व्यापार, व्यवहार द्वारा लाभ हो सकता है। आपको तरक्की, सम्मान, प्रसिद्धि, धन और सुख की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य, पद और अधिकार उत्तम होंगे। आपके बहुत से मित्र होंगे जिनसे लाभ मिलेगा। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी।

आपके जीवनसाथी विदेशियों से व्यवहार और अनुबंधों में सफल रहेंगे। आपके पिता को धन मिलेगा, आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। माता को अचल संपत्ति से लाभ होगा। भाई-बहनों को सट्टेबाजी या निवेश से लाभ होगा, उनकी कोई लंबी मात्रा हो सकती है या उच्चशिक्षा में सफल रहेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो समय लाभकारी रहेगा। परामर्शदाताओं को सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारियों को कार्य में सफलता मिलेगी। आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी, वाक्शक्ति सुदृढ़ रहेगी। उनकी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, परिश्रम से सफलता मिल सकती है।

आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा। आपको स्नायविक विकार, पेट के दर्द आदि से सावधान रहना चाहिए। कष्टों से छुटकारे के लिए समाजसेवी संस्थाओं, आश्रम आदि को दान दें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - केतु
(02/08/2030 - 08/12/2030)**

आपके लिए सूर्य की महादशा 08/12/2025 को प्रारंभ हुई थी। इसमें आठवीं अंतर्दशा केतु की है जिसकी अवधि 4 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 02/08/2030 को आरंभ होकर 08/12/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु संन्यास, मंत्रज्ञान और कष्टों का कारक है।

इस अवधि में आप भाग्यशाली और प्रसन्न रहेंगे। आपकी सामान्य स्थान और धर्मस्थलों की यात्राएं होंगी। तंत्र-मंत्र में दिलचस्पी बढ़ेगी। निवेश सोच-समझकर करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। संतान के कारण कुछ समस्या आ सकती है। आपको धैर्य और नीति का प्रयोग करना होगा। आपको सफलता, प्रोन्नति और भूमि प्राप्ति का संकेत है। सुख-सुविधाएं

रहेंगी।

आपके जीवनसाथी को धनलाभ होगा। पिता को संतान से खुशी मिलेगी; धन और अध्यात्मिक प्रगति का योग है। माता को धन मिलेगा। आपकी संतान की व्यस्तता बढ़ेगी: उन्हें लक्ष्यप्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम करना होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो तनाव हो सकता है; शत्रुओं पर विजय होगी, कुछ चिंताएं रहेंगी। परामर्शदाताओं के कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। व्यापारियों को निवेश से लाभ हो सकता है।

उदर और हृदय के रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए धर्मस्थल पर कंबल दान दें और श्वान को भोजन दें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - शुक्र
(08/12/2030 - 08/12/2031)**

सूर्य महादशा में शुक्र अंतर्दशा होगी।

इस अवधि में आपके पिता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आप धनवान, सुख-सुविधाओं से युक्त रहेंगे। दान-धर्म में रुचि रहेगी। कला में दिलचस्पी होगी। प्रचार कार्य, धर्म में सफलता मिलेगी। सुख, प्रसन्नता, प्रसिद्धि, समृद्धि का योग है। आपके शुभचिंतक मित्र होंगे, आमोद-प्रमोद में समय बीतेगा, लघु यात्राएं होंगी और सुख-साधन उपलब्ध होंगे। मित्रों से पत्र व्यवहार लाभकारी रहेगा। छोटे भाई-बहनों से खुशी मिलेगी।

आपके जीवनसाथी को भाई-बहनों, यात्रा, संचार माध्यमों से लाभ होगा। पिता को धन का लाभ और व्यापार में सफलता का संकेत है। माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। भाई-बहनों को भागीदारी, अनुबंधों और बुजुर्गों से लाभ होगा। उनकी आय बढ़ेगी। आपकी संतान की शिक्षा उत्तम रहेगी, उन्हें निवेश से लाभ हो सकता है।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यालय उत्तम होगा। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ेंगे; कुछ परिवर्तन हो सकता है। व्यापारियों को अप्रत्याशित लाभ, परिवर्तन संभव हैं।

आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा। पैरों में कोई मामूली तकलीफ हो सकती है। अशुभ से बचाव के लिए लक्ष्मी जी का पूजन करें।